



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### थाना मिश्रिख में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.02.2021 को थाना मिश्रिख एवं संदना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए सन्दीप उर्फ छोटकन्ने पुत्र रामहेत निवासी ग्राम मंसूरपुर नेवादा थाना रामकोट जिला सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए धंधारी जंगल के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से 06 निर्मित अवैध शस्त्र व 11 अदद अर्द्ध निर्मित शस्त्र व 02 अदद जिन्दा कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त संबंध में थाना मिश्रिख पर मु0अ0सं0 75/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त एक अभ्यस्त अपराधी है, जो काफी समय पूर्व से ही अवैध शस्त्र बनाने के कार्य में लिप्त था एवम् इसके विरुद्ध सीतापुर के अतिरिक्त जनपद बाराबंकी में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

#### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 75/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।

#### अभियुक्त का नाम व पता-

- सन्दीप उर्फ छोटकन्ने पुत्र रामहेत निवासी ग्राम मंसूरपुर नेवादा थाना रामकोट जिला सीतापुर

### बरामदगी विवरण-

- 06 निर्मित अवैध शस्त्र (दो अदद अद्धी 12 बोर, दो अदद देशी तमन्चा 12 बोर, दो अदद तमन्चा 315 बोर) व 11 अदद अद्ध निर्मित शस्त्र व 02 अदद जिन्दा कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण

### गिरफ्तारी करने वाली थाना मिश्रिख पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री निराला तिवारी
3. का0 सूरज
4. का0 योगेश सिंह
5. का0 रामकृष्ण
6. का0 शिवम सोरान

### गिरफ्तारी करने वाली थाना संदना पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अवधेश यादव
2. का0 सोहन सिंह
3. का0 विनीत सिंह
4. का0 विशेष सिंह

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/96 धारा 323/504/506 भा.द.वि थाना महोली सीतापुर
2. मु0अ0सं0 297/01 धारा 336/504/506 भा.द.वि. थाना महोली सीतापुर
3. मु0अ0सं0 147/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रामकोट सीतापुर
4. मु0अ0सं0 365/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहली सीतापुर
5. मु0अ0सं0 75/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर

कार्यालय  
7839860276

# कोतवाली मिश्रित

जनपद - सीतापुर

